

**पदोन्नति/एमएसीपी/एनएफएसजी पर वेतन निर्धारण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विकल्प का प्रपत्र**

**FORM OF OPTION TO BE SUBMITTED FOR PAY FIXATION ON PROMOTION/MACP/NFSG**

में, ..... (नाम) एतद् द्वारा विकल्प चुनता/चुनती हूं कि ..... (पदोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि या एमएसीपी/एनएफएसजी प्रदान करने की तिथि) से एल-..... के वेतन स्तर पर ..... (पदोन्नत पद)/ एमएसीपी या एनएफएसजी के अनुदान के रूप में पदोन्नति पर मेरा वेतन निम्नानुसार तय किया जा सकता है:

I, ..... (Name) hereby opt that my pay on promotion as ..... (Promoted post)/grant of MACP or NFSG to the Pay Level of L-....., with effect from ..... (the date of assumption of charge in the promoted post or date of grant of MACP/NFSG), may be fixed as under:

क) मेरा प्रारंभिक वेतन एफआर 22(I)(ए)(1) के आधार पर पदोन्नति/ एमएसीपी या एनएफएसजी के अनुदान की तिथि पर, निचले पद के वेतन स्तर में वृद्धि के कारण किसी और समीक्षा के बिना, उच्च वेतन स्तर में सीधे तय किया जा सकता है। / My initial pay may be fixed straightway in the higher pay level on the date of promotion/ grant of MACP or NFSG on the basis of FR 22(I)(a)(1) without any further review on account of increment in the pay level of the lower post.

**या/OR**

ख) पदोन्नति/एमएसीपी/एनएफएसजी की तारीख पर मेरा वेतन, शुरू में पदोन्नत पद के वेतन स्तर या एमएसीपी/एनएफएसजी के तहत दिए गए वेतन स्तर में अगले उच्चतर सेल में, निचले पद/वेतन स्तर में मेरे वेतन से ऊपर निर्धारित किया जा सकता है। जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017-स्थापना (वेतन-I) दिनांक 27 जुलाई 2017 के साथ FR 22(I)(a)(1) के प्रावधानों के आधार पर निचले ग्रेड के वेतन स्तर में अगली वेतन वृद्धि की तिथि पर फिर से तय किया जा सकता है। My pay on the date of promotion/ MACP/ NFSG, may initially be fixed at the next higher cell in the pay level of promoted post or pay level granted under MACP/ NFSG, above my pay in the lower post/pay level, which may be re-fixed on the date of accrual of next increment in the pay level of the lower grade on the basis of the provisions of FR 22(I)(a)(1) read with DoP&T OM No. 13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27 July 2017.

निचले पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि ..... है।/The date of next increment in the scale of pay of the lower post is .....

**(कृपया जो लागू न हो उसे पूर्णतः काट दें/Please strike-off completely whichever is not applicable)**  
में यह भी समझता/समझती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम है।/I also understand that the option exercised by me is final.

हस्ताक्षर/Signature .....

नाम/Name .....

स्थान /Place .....

पदनाम/Designation.....

दिनांक/Date .....

कार्यालय/Office .....

कर्मचारी पहचान संख्या/Employee ID No. ....

## घोषणा/UNDERTAKING

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि इन नियमों में निहित प्रावधानों के विपरीत तरीके से मेरा वेतन निर्धारित किए जाने की स्थिति में, जैसा कि बाद में पता चला है, इस प्रकार किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को मेरे द्वारा या तो मेरे भविष्य के भुगतानों के खिलाफ समायोजन करके या अन्यथा, सरकार को वापस कर दिया जाएगा। I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

हस्ताक्षर/Signature .....

नाम/Name .....

स्थान /Place .....

पदनाम/Designation.....

दिनांक/Date .....

कार्यालय/Office .....

कर्मचारी पहचान संख्या/Employee ID No.

.....

डीडीओ/एसएओ/ए-... द्वारा स्वीकृत और प्रतिहस्ताक्षरित/ Accepted & countersigned by DDO/SAO/A-...